



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2012/पौष 5, 1934

No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2012/PAUSA 5, 1934

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2012

सं. 37/1/(XII)/2012/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा लोक सभा का सत्रावसान करता हूँ।

24 दिसम्बर, 2012

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति।”

टी. के. विश्वनाथन, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2012

No. 37/1/(XII)/2012/T.—The following order by the President dated the 24th December, 2012 is published for general information :—

“In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

December 24th, 2012

PRANAB MUKHERJEE,
PRESIDENT.”

T. K. VISWANATHAN, Secy.-General